



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259743
CG-DL-E-31122024-259743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1047]
No. 1047]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा. सं. 18-36/13434-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, असर्फी अस्पताल बारामुरी, बिसुनपुर पॉलिटेक्निक, धनबाद, जिला धनबाद-828130 (झारखंड) झारखंड राज्य सरकार तथा झारखंड नर्सिंग पंजीकरण परिषद् द्वारा एएनएम, जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राज्य सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-834002, झारखंड को संबोधित नोटिस संख्या 18-36/13434-आईएनसी (46143) दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया था। दिनांक 26.12.2023 को जारी नोटिस की एक प्रति धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, असर्फी अस्पताल बारामुरी, बिसुनपुर पॉलिटेक्निक, धनबाद, जिला धनबाद-828130, झारखंड को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् द्वारा इस मामले पर समग्र विचार किया गया है। दिनांक 07.03.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जिसका मतलब है कि संस्थान एएनएम, जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रमों का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, असर्फी अस्पताल बारामुरी, बिसुनपुर पॉलिटेक्निक, धनबाद, जिला धनबाद-828130, झारखंड से एएनएम, जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल झारखंड राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./809/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F.No. 18-36/13434-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Dhanbad School Of Nursing** situated at **Asarfi Hospital Baramuri, Bisunpur, Polytechnic, Dhanbad, Distt.- Dhanbad, Pin Code- 828130, Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses & Registration Council to conduct ANM, GNM, B.Sc(N) and Post Basic B.Sc(N) Course.

Whereas, a notice no. 18-36/13434-INC (46143) dated 26/12/2023 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 26/12/2023 was also enclosed to **Dhanbad School Of Nursing** situated at **Asarfi Hospital Baramuri, Bisunpur, Polytechnic, Dhanbad, Distt.- Dhanbad, Pin Code- 828130, Jharkhand**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Dhanbad School of Nursing**. Even the institution **Dhanbad School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 07/03/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run ANM, GNM, B.Sc(N) and Post Basic B.Sc(N) Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of ANM, GNM, B.Sc(N) and Post Basic B.Sc(N) from **Dhanbad School Of Nursing** situated at **Asarfi Hospital Baramuri, Bisunpur, Polytechnic, Dhanbad, Distt.- Dhanbad, Pin Code- 828130, Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of Jharkhand.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./809/2024-25]